

09.11.2023

To, The Manager - Listing National Stock Exchange of India Ltd. **Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex** Bandra (East) Mumbai - 400 051

Symbol: DHAMPURSUG

Tel No. 022-2659 8237 /38

The General Manager – DSC **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai: 400001 Tel No.022-22722039/37/3121

Security Code: 500119

Dear Sir,

Subject: Submission of Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of newspaper publication published in Business Standard (English and Hindi Edition) dated 9th November 2023 w.r.t Postal Ballot Notice and **Evoting Instructions.**

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz., www.dhampusugar.com.

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

For Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goel Company Secretary M. No. 22787



A GRAINY PICTURE

Measuring Covid's impact on poverty is crucial, but it has become a contested issue in the absence of government data

ASIT RANJAN MISHRA

New Delhi, 8 November

n October 2022, the World Bank put out a report saying nearly 56 million Indians might have plunged into extreme poverty in 2020-21 as a result of the economic shock induced by the Covid-19 pandemic, increasing the global tally by 71 million and making it the worst year for poverty reduction since World War II.

Last month, a year since that report came out, the Bank significantly adjusted its estimates, suggesting that the number of people who fell into poverty in India in 2020-21 was approximately 29.5 million. This indicates a less severe

impact of the pandemic on poverty than initially projected.

The impact of the pandemic on poverty and inequality in India has been a contested issue in the absence of government data. Estimation of the Covid impact on poverty is crucial for policy formulation as many analysts believe an increase in poverty in India has undone several years of progress on this front.

Though India is estimated to have made remarkable progress improving welfare and reducing poverty rates in recent decades, extreme poverty (at \$2.15 purchasing power parity) increased by two percentage points to 14.7 per cent in the pandemic year of 2020-21 before declining to 11.9 per cent in 2021-22.

According to fresh estimates by the World Bank, extreme poverty further declined to 11.3 per cent in 2022-23, but that was still above the pre-pandemic level of 11.09 per cent recorded in 2018-19. It was a signal that further decline could be a challenge.

In the absence of Household Consumer Expenditure Survey data from the government after 2011-12, the multilateral lending institution used data from the Consumer Pyramids Household Survey (CPHS) conducted by the Centre for Monitoring Indian Economy to estimate poverty for India.

Meanwhile, in July this year, the NITI Aayog released the National Multidimensional Poverty Index (MPI), capturing India's progress in reducing socioeconomic deprivation between the two surveys, National Family Health Survey-4 (2015-16) and NFHS-5 (2019-21). However, it clarified that the poverty estimates may not fully assess the effects of the Covid-19 pandemic on poverty, since more than 70 per cent of the data (NFHS-5) was collected before the pandemic.

According to the report, between 2015-16 and 2019-21, 135 million people escaped multidimensional poverty, which during these five years declined from 24.85 per cent to 14.96 per cent. Rural areas witnessed a faster decline in poverty than urban areas. However, the MPI which measures simultaneous deprivations across the three dimensions of health and nutrition, education, and standard of living, is criticised for including administrative indicators such as bank accounts and electricity connections, trends for which are almost irreversible.

The great poverty debate

The impact of India's economic reforms of the 1990s on poverty reduction was widely debated in the early 2000s. Nobel Laureate Angus Deaton and economist Valerie Kozel christened it "The Great Indian Poverty Debate", noting that the claims had often been frankly political, but there were also important statistical issues.


About 20 years later, "The Great Indian Poverty Debate II" has been fuelled by the lack of official household consumer expenditure survey data for the last 11 years, which has forced economists to use proxies to estimate the extent of poverty reduction in the last decade, with wildly varied results. The debate intensified recently with the pandemic-induced income shock believed to have reversed India's poverty reduction trajectory.

Pew Research Centre in a report published in March, 2021, claimed around 75 million people in India fell into extreme poverty in 2020 because of the pandemic. In contrast, estimates published by Surjit Bhalla, Karan Bhasin and Arvind Virmani in April 2022 showed the poverty rate remained virtually unchanged during the pandemic period. at 0.9 per cent (at \$1.9 PPP) due to the inkind transfers, such as free food grains, providing a social safety net.

Economists Arvind Panagariya and Vishal More, using the Period Labour Force Survey (PLFS) data in March this vear concluded that on the quarterly basis, rural poverty saw a modest rise only during the strict lockdown quarter of April-June 2020, but fell below the pre-

SLOW PROGRESS

POVERTY RATE (IN %)



Covid level soon after, and continued to decline.

An International Monetary Fund (IMF) working paper, published in July this year and using CPHS and PLFS data, concluded poverty increased drastically during the lockdown period, reaching more than four times of the 2019 average level based on the \$1.9 PPP line. Poverty also increased during the second wave of the pandemic, but the situation

AN IMF WORKING

DATA, CONCLUDED

THE LOCKDOWN

PERIOD

POVERTY INCREASED

DRASTICALLY DURING

PAPER. PUBLISHED

IN JULY THIS YEAR AND

USING CPHS AND PLFS

improved toward the end of 2021, and, as of the fourth quarter of 2021, the number of people under the \$1.9 line was practically back to the prepandemic level.

Analysis of PLFS data by the authors showed that more than 50 per cent of casual workers lost their jobs in the second quarter of 2020. "Although the rate of job loss was significantly lower for regular wage and self-employed,

many people did not work in the second quarter of 2020. Regular wage workers were more protected because some could continue to receive wages despite their absence from work, but that was not the case for self-employed and casual workers," it said.

Relief through targeted subsidies

Both Bhalla as well as Panagariya argued that the free distribution of an additional 5 kg food grains and cash transfers arrested a sharper decline in poverty. Almost concurrently with the strict

lockdown, in April 2020, the government launched Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY), which provided 5 kg of free food grains per person per month to 75 per cent of the rural and 50 per cent of urban households. This was on top of the usual provision of 5 kg monthly food grains per person at highly subsidised prices under the National Food Security Act (NFSA) to the same population.

The government was also quick to increase the allocations under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREGA) scheme, adding to the rural employment cushion. The expenditure on MGNREGA rose from ₹618 billion in 2018-19 to ₹717 billion in 2019-20, and further to ₹1.1 trillion in 2020-21. The government also transferred ₹500 each for three months to women Jan Dhan account holders during the pandemic.

The IMF working paper, which did not factor in the targeted benefits by the government, held that since the first wave of the pandemic led to a very sharp decline in income and consumption for most households, narrowing the support through income-based redistribution led

> to some households falling into poverty. "This highlights the fact that when faced with large shocks it is beneficial to provide support using schemes with broad coverage and the authorities' response to the pandemic through increasing support through the food subsidy was important in reducing poverty," it said.

It advised the government that ongoing efforts to

improve targeting should continue. "Improving targeting can improve outcomes in terms of poverty reduction and enhance the effectiveness of public expenditure, which is crucial when fiscal space is limited," it said.

Prime Minister Narendra Modion Saturday announced extension of the ongoing free ration under NFSA to continue for the next five years. Though its political dividends will be tested in the ongoing Assembly elections, it highlights the tough battle against poverty that lies ahead.

W.S.INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

CIN: L29142TN1961PLC004568

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2023

(under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015)

			STANDALONE		CONSOLIDATED			
S.No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED	HALF YEAR ENDED	QUARTER ENDED	QUARTER ENDED	HALF YEAR ENDED	QUARTER ENDED	
		30th Sept 2023	30th Sept 2023	30th Sept 2022	30th Sept 2023	30th Sept 2023	30th Sept 2022	
'		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1	Total income from operations (net)	8121.51	12717.01	464.60	8121.51	12717.01	464.60	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional/Extraordinary items)	1143.25	1504.49	(215.44)	1143.14	1504.31	(215.54	
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional/Extraordinary items)	1143.25	1640.17	(215.44)	1143.14	1639.99	(215.54	
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Exceptional/Extraordinary items)	1143.25	1640.17	(215.44)	1143.14	1639.99	(215.54	
5	Total Comprehensive income for the period {Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive income (after Tax)}	1142.92	1640.65	(215.44)	1142.81	1640.47	(215.54	
6	Equity Share Capital	4695.16	4695.16	3089.48	4695.16	4695.16	3089.48	
7	Reserves excluding Revaluation reserves	2986.88	2986.88	(5215.68)	2980.89	2980.89	(5220.52	
8	Earnings Per Share (for continuing and discontinuing operations) (of ₹ 10/- each)							
	a) Basic	2.53	3.60	(0.79)	2.53	3.60	(0.79	
-	b) Diluted	2.31	3.29	(0.79)	2.31	3.29	(0.79	

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarter and half year ended 30th September 2023 unaudited financia results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September 2023 are available on the Stock Exchange Websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.wsindustries.in)
- 2. The above unaudited results were reviewed by the Audit Committee on 8th November 2023, approved and taken on record by the respective Board at its meeting held on 8th November 2023, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
- 3. The Group financial results for the Quarter and half year ended 30th September 2023 are prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS prescribed under Section 133 of the companies Act, 2013 read with relevant Rules issued thereunder
- 4. Figures have been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform to this period's classifications
- STANDALONE: 5. The operations for the current guarter is from the continuing business of turnkey projects from erstwhile operations and
- infrastructure operation 6. During the quarter under reviews
- i. the company has converted 350000 warrants to equity shares fully paid on 5th July 2023.
- ii. the company has converted 280000 warrants to equity shares fully paid on 9th August 2023 iii. the company has converted 1420000 warrants to equity shares fully paid on 28th September 2023.
- 7. The company operates primarily in Infra segment and accordingly the company is not required to present segment
- 8. Previous period exceptional item includes impact of write back of liability to the tune of Rs. 847.53 Lakhs pertaining to discontinued Electro-porcelain products division's and continuing business of turnkey projects from erstwhile operations's long outstanding creditors and debtors with credit balances.
- 9. Current year exceptional item includes the following items,
- (i) Receipt of compensation from NHAI for Rs.53.68 Lakhs with regards to banglore land
- (ii) Non refundable deposit net of GST amount Rs 82 Lakhs received resultant of leasing of Banglore land whereby giving easement right by way of giving access through the property, entire amount has been recognised as revenue during the
- 10. The Company had participated in an e-auction on 09.03.2023 pursuant to which the Company stood as the successful bidder and purchased the property, being an auction under SARFAESI, a Sale Certificate was issued confirming the ownership and possession on 27.03.2023. Accordingly, the Company had remitted the sale consideration of Rs. 107.35 Crores. The Company is in the process of registering the Sale Certificate with Sub Registrar Office of Sunguvarchatram. Pending mutation in favour of the Company the purchase consideration paid amounting to Rs.107.35 crores has been classified as Capital advance in financial statements
- 11. Land at Porur to the extent of 6.53 Acres has been agreed to be transferred to subsidiary WSI Falcon Infra Projects Private Limited (formerly WS Insulators Private Limited) as a part of joint venture agreement entered for development of IT park and accordingly reclassified under asset held for sale as at 30 September 2023.

- 12. The Consolidated financial statements relate to W.S. Industries (India) Limited (the Parent Company), and its Subsidiary Company. The Parent Company with its subsidiary constitute the Group.
- 13. The Subsidiary Company considered in the consolidated financial statements is M/s. WSI Falcon Infra Projects Private Limited (formerly WS Insulators Private Limited), whose country of incorporation is India and the percentage of voting power by W.S. Industries (India) limited is 100%.
- 14. The Group is not required to provide Segment Reporting under the criteria specified in IND AS 108

Place: Chennai Date: 8th November 2023 for W. S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED SEYYADURAI NAGARAJAN CHAIRMAN DIN: 07036078

RISHI TECHTEX LIMITED CIN: L28129MH1984PLC032008

Email: info@rishitechtex.com Website: www.rishitechtex.com

612, V. K. Industrial Estate, 10-14 Pais Street, Byculla (West), Mumbai-400 011 Tel. No. (022) 23075677 / 23074585, Fax No. (022) 23080022

Six Months Ended Year Ended Quarter Ended 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 Particular Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Revenue from Operations 2829.41 2596.22 2697.03 5425.63 5113.73 10683.66 rofit / (Loss) before Exceptional Item and Tax 33.70 56.24 21.86 89.94 52.06 125.20 rofit / (Loss) before Tax 56.24 21.86 89.94 52.06 125.20 rofit / (loss) for the period 28.76 41.18 16.01 69.94 38.13 111.26 Total Comprehensive Income for the period 28.76 41.18 16.01 69.94 38.13 111.26 Paid up equity share capital 739.10 739.10 739.10 739.10 739.10 739.10 (Face Value of ₹ 10/- each 2,310.58 ther Equity Earnings per equity share (Face Value ₹ 10/- each) (a) Basic 0.390.56 0.22 0.950.52 1.51

(b) Diluted

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2023, filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

0.39

0.56

0.22

- 2. These Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 8th November 2023. 3. These Results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 and other recognised accounting practices and policies to the
- The previous period's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.
- The full format of the above Financial Results are available on the Stock Exchange website and on www.rishitechtex.com. For RISHI TECHTEX LIMITED

Abhishek Patel

0.95

0.52

1.51

Place: Mumbai Date: 8th November, 2023 Managing Director DIN: 05183410

MPS INFOTECNICS LIMITED Regd. Off.703, Arunachal Building,19 Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN:L30007DL1989PLC131190, Ph: 011-43571044, Fax:011-43571047; Email: info@mpsinfotec.com Extract of Unaudited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023

Particulars	C	Quarter Ended Half Year Ended Year E		Half Year Ended		
			30-Sep-22 Un-audited	30-Sep-23 Un-audited	30-Sep-22 Un-audited	31-Mar-23 Audited
Total income from operations (net)	20.93	10.74	11.75	31.67	26.52	154
Net Profit / (Loss) from ordinary activities						
before tax	(91.10)	(95.03)	(124.38)	(186.13)	(253.74)	(504.50)
Net Profit / (Loss) from ordinary activities						
after tax	(79.44)	(83.44)	(108.80)	(162.88)	(222.59)	(440.38)
Total Comprehensive Income for the Period						
(Net of Taxes)	(68.71)	(84.81)	(16.37)	(153.52)	(160.26)	(374.08)
Equity Share Capital						
(Face Value Rs.1/- per share)	37,744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37
Reserves excluding Revaluation reserves						
(i.e. Other equity)						5,726.98
Earning Per Share (Basic)	(0.002)	(0.002)	(0.000)	(0.004)	(0.004)	(0.010)
Earning Per Share (Diluted)	(0.002)	(0.002)	(0.000)	(0.004)	(0.004)	(0.010)
	Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax Total Comprehensive Income for the Period (Net of Taxes) Equity Share Capital (Face Value Rs. 1/- per share) Reserves excluding Revaluation reserves (i.e. Other equity) Earning Per Share (Basic)	30-Sep-23 Un-audited	30-Sep-23 30-Jun-23 Un-audited Un-au	30-Sep-23 30-Jun-23 30-Sep-22 Un-audited Un-aud	30-Sep-23 30-Jun-23 30-Sep-22 30-Jun-24 30-Sep-23 30-S	30-Sep-23 30-Sep-22 30-Sep-22 30-Sep-23 30-Sep-22 30-Sep-23 30-Sep-22 30-Sep-23 30-Sep-22 30-Sep-23 30-S

8 Earning Per Share (Diluted) Note:

Place: New Delhi

Date: 07/11/2023

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 or the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements)Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.mpsinfotec.com.
- The key standalone financial information are as under

z. The key ctandarene imanetarine matter are	The key character maneral method and are accurate.							
Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Financial Year Ended			
	30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23		
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited		
Total revenue from operations	20.93	10.74	11.75	31.67	26.52	154		
Profit before tax	(91.09)	(95.03)	(124.38)	(186.13)	(253.73)	(504.50)		
Profit after tax	(125.94)	(83 44)	(108.80)	(162.88)	(222.58)	(440.38)		

3. The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on November 7, 2023.

For MPS Infotecnics Limited

Peeyush Kumar Aggarwal DIN:00090423

Place: New Delhi

DHAMPUR

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED Registered Office: Dhampur, District Bijnor (U.P.) 246761 Tel: 011-41259400, E-mail: investordesk@dhampursugar.com Website: www.dhampursugar.com, CIN: L15249UP1933PLC000511

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that Dhampur Sugar Mills Limited (the Company) is seeking approval of the Members of the Company by way of postal ballot through remote e-votin

		Type of Resolution
	Appointment of Mr. Subhash Pandey as Whole Time Director of the Company.	
2	Alteration of the Articles of Association of the Company.	Special

The Postal Ballot Notice inter-alia containing explanatory statement and instructions for remote e-voting is available and may be downloaded from the Company's website at www.dhampursugar.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited ('NSDL') a www.evoting.nsdl.com. In compliance with the MCA Circulars, the electronic dispatch of Postal Ballot Notice

has sent via email on 08th November, 2023 only to those Members whose name appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited "CDSL") and whose e-mail addresses are available with the Company" and Depositories as on 03rd November 2023 ("cut-off date").

Accordingly, physical copy of the Postal Ballot Notice along with postal ballot form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members for this postal ballot The electronic dispatch of Postal Ballot Notice has been completed on 08th

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limiter ('NSDL') for the purpose of providing remote e-voting facility to its members. The detailed procedure for remote e-voting forms part of the 'Notes' section to the Notice Members desiring to exercise their vote through the remote e-voting process are requested to carefully read the instructions indicated in the Notice and record the assent (FOR) or dissent (AGAINST) by following the procedure as stated in the 'Notes'

section of this Notice for casting of votes by remote e-voting Commencement of e-voting 9:00 A.M. (IST) on Tuesday, November 14, 2023 End of e-voting 5:00 P.M. (IST) on Wednesday, December 13, 2023

Remote e-Voting will be blocked by NSDL immediately thereafter and will not be allowed beyond the said date and time. During this period, Members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the cut-off date, i.e. (03rd November, 2023), shall cast their vote

electronically. The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of share registered in the name(s) of the Member(s) as on the cut-off date. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change As per the SEBI circular dated December 9, 2020, on e-voting facility provided by Listed companies, e-voting process has been enabled to all the individual Demat account

holders, by way of a single login credential, through their Demat accounts/websites of Depositories/Depository Participants (DPs) in order to increase the efficiency of the voting process. Members are advised to update their mobile number and email address with their respective DPs in order to access e-voting facility. Detailed instructions for ogin methods of remote e-voting are provided in the Notice of Postal Ballot.

The Board of Directors has appointed Mr. Saket Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No.: F4229), Partner, M/s GSK & Associates, Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot, through e-voting process, in a fair and

After completion of scrutiny of the votes, the Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company, or any person authorized by him. The results of the voting conducted through Postal Ballot (through the remote e-voting process) along with the Scrutinizer's Report will be announced by the Chairman or such person as authorized, on or before 15th December 2023. The same will be displayed on the website of the Company: www.dhampursugar.com, the website of NSDL: www.evoting.nsdl.com and shall also be communicated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), where the Company's Equity Shares are listed and be made available on their respective websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Resolution, if approved, will be taken as having been passed effectively on the last date of remote e-voting i.e., 13th December 2023.

In accordance with the MCA Circulars, the Company has made necessary arrangements for the Members to register their e-mail address. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same:

- (i) with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts, the shares are held in electronic form, and
- ii) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at www.dhampursugar.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to Alankit Assignments Limited Registrar and Share Transfer Agent, Unit Dhampur Sugar Mills Limited, 4E/2 Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, Email Id- rta@alankit.com

n case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in

For Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goel Company Secretary M. No.: 22787

ELITECON INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L16000DL1987PLC396234

Registered Office: 152, Shivani Apartments, Plot No. 63, I.P. Extension, Patparganj, Delhi - 110092

Phone: 9871761020. Email: admin@eliteconinternational.com, website: www.eliteconinternational.com

prepared in compliance with the Indian Accounting Standards (IND-AS) Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2023 (Amount in Rs. Lakh Quarter Ended | Quarter Ended | Year ended **Particulars** 30-09-2023 30-09-2022 31-03-2023 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 5,833.21 2.507.70 Total income from operations (net) 322.00 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or 121.81 (1,256.48)(7,821.22)Extraordinary Items Net Profit / (Loss) for the period before Tax,(after Exceptional and/or 121.81 (1,256.48) (7,821.22)Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax,(after Exceptional and/or 125.38 (1,247.94)(7,818.11)Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 125.38 (1,247.94)(7,818.11)121.00 Equity Share Capital 121.00 121.00 Reserves (excluding Revaluation Reserve) (7,541.23)276.88 276.88 Earnings Per equity Share(of Rs.10/each) (for continuing and discontinuing operations) (a) Basic: 10.36 (103.14) (646.12) (103.14)(b) Diluted: 10.36 (646.12)

1.) Above results were reviewed by Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on Tuesday, November 07, 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the results for the guarter and half year ended September 30, 2023 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Year ended financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Year ended Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and Company's website

www.eliteconinternational.com 3.) The above results have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 ('Ind AS') prescribed unde Section 133 of the Companies Act, 2013 read together with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 as amended.

4.) The Company has moved an application for the Voluntary delisting of its Securities from CSE on April 09, 2021

For and on behalf of the Board of Directors
ELITECON INTERNATIONAL LIMITED

Date: November 08, 2023 Place : New Delhi

(VIPIN SHARMA Managing Director DIN: 01739519

GROUP **MEGA**

MegaCo₹p

MEGA CORPORATION LIMITED CIN L65100DL1985PLC092375

Regd.Office: 62, Upper Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 | Ph.: +91 11 46557134 email: info@megacorpltd.com, www.megacorpltd.com

				CTAND		khs except p	er share data
SI.	Particulars	STANDALONE Quarter Ended Half Year Ended Yea			Year Ended		
No.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
(I)	Total Revenue from operations (Including Other Income)	85.30	73.32	83.52	158.62	164.90	316.99
(II)	Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items	(4.01)	20.76	19.22	16.75	39.87	29.71
(III)	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	(4.01)	20.76	19.22	16.75	39.87	29.71
(IV)	Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items	(4.01)	20.76	19.22	16.75	39.87	22.74
(V)	Total comprehensive Income for the period [comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	(4.01)	20.76	19.22	16.75	39.87	25.00
(VI)	Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- each)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(VII)	Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Basic (Rs.)	(0.00)	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
(VIII)	Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Diluted (Rs.)	(0.00)	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03

- 1. The above unaudited results, reviewed by the Audit Committee were taken on record, by the Board of Directors in the meeting held on 08th November, 2023.
- 2. Provision for Taxation & Deferred tax adjustment will be considered at the end of the year

Previous Year/ Qtrs. Have been regrouped/ rearranged, wherever necessary.

For Mega Corporation Limited

Surendra Chhalani (Director & CFO) DIN:00002747

Date: 08.11.2023 Place: New Delhi

दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

CIN: L29130HR1986PLC081555

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24,25,26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरूग्राम-122050, हरियाणा कार्पो. कार्यालय : मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशान्त लोक-।, सेक्टर-27,

गुरूग्राम -122002, हरियाणा

वैबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com

सितम्बर 30, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतू अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रू. मिलियन में, सिवाय प्रति						
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त	अर्द्ध वर्ष समाप्त	
		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2022	
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	
1.	परिचालन से कुल आय	2,849.25	3,164.56	5,515.16	6,103.24	
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	75.45	97.79	198.38	159.29	
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	847.05	97.79	969.98	159.29	
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	722.16	35.28	815.15	38.97	
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [िजसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है),	734.18	14.45	845.94	57.59	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.68	187.68	187.68	187.68	
7.	आस्तियों एवं देयताओं के विवरण के अनुसार अन्य इक्विटी				-	
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) —					
	(क) मूल : (ख) तनुकृत :	38.48 38.38	1.88 1.88	43.43 43.33	2.08 2.08	
	- ·					

नोट्स :

- 1) उपरोक्त अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम अंकेक्षण समिति द्वारा नवम्बर 07, 2023 को सम्पन्न इसकी बैठक में पुनरीक्षित किए गए हैं और उसके उपरान्त निदेशक मंडल द्वारा नवम्बर 07, 2023 को सम्पन्न इसकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।
- 2) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए सितम्बर 30, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध-वर्ष हेतु समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत
- 3) समीक्षा अविध के दौरान, दि हाई-टेक गियर्स कनाडा इन्क. ('THGCA'), कनाडा में प्रचालनरत पूर्णतया स्वाधिकृत स्टेप डाउन सहायक कम्पनी ने अगस्त 31, 2023 को 1787377 ओन्टारियो इन्क. के साथ गुएल्फ, ओन्टारियो, कनाडा, जहां THGCA का प्लाण्ट अवस्थित है, में अवस्थित भूमि एवं भवन के लिए सेल एवं लीज बैक ('S&LB') अनुबंध किया है। अपवादात्मक मदों से आय में, सेल एवं लीज बैक सौदे से अर्जित, Ind-AS के प्रावधानों के अनुसार परिकलित, रू. 771.60 मिलियन की राशि, निदर्शित की गई है। यह सौदा परिचालन को प्रभावित किए बिना पूरा किया गया था।
- 4) सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के अनुसरण में कम्पनी की प्रमुख पृथक्कृत अनंकेक्षित वित्तीय जानकारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है (रू. मिलियन में)

				,	
ı	विवरण	तिमाही	तिमाही	अर्द्ध वर्ष	अर्द्ध वर्ष
ı	1771	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त
ı		30/09/2023	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2022
ı		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)
ı	परिचालन से आय और अन्य आय	2,042.68	2,192.26	3,872.99	4,146.15
ı	कर पूर्व लाभ	138.40	213.19	274.30	383.74
ı	कर पश्चात लाभ	100.70	147.25	203.76	255.89

सितम्बर 30, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट (www.nseindia.com और www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.thehitechgears.com) पर उपलब्ध है।

> कते एवं हिते निदेशक मंडल दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड हस्ता./

दीप कपूरिया स्थान : नई दिल्ली कार्यकारी अध्यक्ष तिथि : नवम्बर 07, 2023 (DIN: 00006185)

IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट –15, 6टा तल, सेक–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002 **शाखा कार्यालय** : ईंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्प.लि. प्रथम तल, 10 डी, पंजवानी कॉम्पलेक्स, मल्टिपरपस स्कूल के सामने, गुमानपुरा, कोटा–304007 राजस्थान

अचल संपत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबिक अद्धोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण औ प्रतिभूति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग यह र्णित खातो के विरुद्ध सूचना में लिखित दिनांक पर एक मांग सूचना जारी कर निम्न उल्लेखित उधारकर्ता और संपत्ति के मालिक /राशि चकाने की जमानत उल्लेखित ाशि को उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया। चूंकि संपत्ति मालिक और अन्य राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वार धारकर्ता और सर्व सामान्य को सचना दि जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्न वर्णित संपत्ति / यों को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उक्त नियमों के नियम ६ भौर 9 के तहत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में सूचना में उल्लेखित दिनांक पर प्रत्येक खाते के विरुद्ध संपत्ति का कब्जा ले लिया है, विशेष रूप से उधारकर्ता और आम तौर फ नता को आगाह किया जाता है कि वह संपत्ति/यों से कोई लेन–देन न करें संपत्ति/यों के साथ कोई भी लेन–देन भविष्य के ब्याज और लागत के साथ इंडिया शेल्द इनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रभार के अधीन होगा

1/10/1/1/4/11/1/1/1/1/1/1/1/1/4/01/1/4/	111							
उधारकर्ता/गारंटर का नाम (संपत्ति मालिक) और ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक संपत्ति का विवरण (निर्मित संपत्ति का संपूर्ण और सर्वांगीण भाग)	मांग सूचना की दिनांक, मांग सूचना की दिनांक अनुसार बकाया राशि	कब्जे की दिनांक					
357 मुख्य बाजार, गेंटा इटावा, कोटा, जिला कोटा	ाम दवला अरब, तहसाल लाडपुरा, ाजला काटा 341513 राजस्थान का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग । सीमांकन:– पूर्व : सड़क, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर	लाख पंद्रह हजार दौ सौ तैतालीस और इक्यावन पैसा मात्र) दिनांक 10.04.2023	05/11/2023					
कोई भी जानकारी हेतु कृपया संपर्क करें श्री नवादित त्रिपाठी (+91 9694254879) और श्री प्रवीण कुमार (+91 9829210801) (प्राधिकृत अधिकारी)								
स्थान : राजस्थान विनांक : 09/11/2023		इंडियाशेल्टर फाइनेंस कॉपॉ	रिशन लिमिटेड					

IndusInd Bank

एफआरआर ग्रुप, 11वां तल, हयात रिजेंसी कॉम्पलेक्स, न्यु टॉवर, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066

[(नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी द्वारा **इंडसइंड बैंक लिमिटेड(आईबीएल)** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं ् नर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(2) के सहपठित नियम 3 र्क अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में , दिनांक 07.06.2022 को मांग सूचना जारी करते हुए कर्जदार और बंधककर्ताओं (1) **हॉटस्पॉट डेवल्पर्स** प्राइवेट लिमिटेड , (2) आर .के. अरोरा (निदेशक और गारंटर), (3) मोहित अरोरा (निदेशक और गारंटर), (4) अखिल अरोरा (निदेशक और गारंटर) और सुपरटेक लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर), को सूचना में उल्लेखित रुपये 26,06,12,025.48/—(रुपये छब्बीस करोड़ छह लाख बाराह हजार पच्चीस और अड़तालीस पैसा मात्र) दिनाक 31.05.2022 तक बकाया उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज, लागतों और उस पर दिनांक 0 1.06.2022 से अन्य व्ययों सहित संपूर्ण बकाया की वसुली तक भूगतान करने की मांग की गई है।

कर्जदारों और बंधककर्ताओं देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (12) के तहत नेयुक्त आईबीएल के प्राधिकृत अधिकारीँ द्वारा कर्जदार , गारंटरों,बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दो जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त (अधिनियम) की धारा 13(4) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 🖲 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस **नवंबर के 08 वें दिन 2023** को निम्न वर्णित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार जारंटरों बंधककर्ताओं और आम जनता को एतददारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन ''आईबीएल''को देय **रुपये 26,06,12,025.48/— (रुपये छब्बीस** करोड़ छह लाख बाराह हजार पच्चीस और अड़तालीस पैसा मात्र) दिनाक 31.05.2022 तक बकाया उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज, लागतों और उस पर दिनांक ०१.०६.२०२२ से लागतों, प्रभारों और व्ययों आदि सहित संपूर्ण बकाया की वसूली तक प्रभार के अधीन होगा

कर्जदार,गारंटरों और बंधककर्ताओं का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में , प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (८) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण	
संपत्ति का विवरण	बंधककर्ता
व्यवसायिक प्लॉट सं.सी-002, सेक्टर 96, नोएडा मापक 7724.19 वर्ग मीटर, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग''	हॉटस्पॉट डेवल्पर्स
पर दुसरा प्रभार बंधक के माध्यम से।	प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक : 08.11.2023	प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नोएडा, उत्तर प्रदेश	इंडसइंड बैंक लिमिटेड

MPS INFOTECNICS LIMITED

Regd. Off.703, Arunachal Building,19 Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN:L30007DL1989PLC131190, Ph: 011-43571044, Fax:011-43571047; Email: info@mpsinfotec.com Extract of Unaudited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023

	(INR in Lacs)							
S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year	Financial Year Ended			
			30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	
		Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited	
1	Total income from operations (net)	20.93	10.74	11.75	31.67	26.52	154	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities							
	before tax	(91.10)	(95.03)	(124.38)	(186.13)	(253.74)	(504.50)	
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities							
	after tax	(79.44)	(83.44)	(108.80)	(162.88)	(222.59)	(440.38)	
4	Total Comprehensive Income for the Period							
	(Net of Taxes)	(68.71)	(84.81)	(16.37)	(153.52)	(160.26)	(374.08)	
5	Equity Share Capital							
	(Face Value Rs.1/- per share)	37,744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	37744.37	
6	Reserves excluding Revaluation reserves							
	(i.e. Other equity)						5,726.98	
7	Earning Per Share (Basic)	(0.002)	(0.002)	(0.000)	(0.004)	(0.004)	(0.010)	
8	Earning Per Share (Diluted)	(0.002)	(0.002)	(0.000)	(0.004)	(0.004)	(0.010)	
No	te·							

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements)Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website

The key standalone financial information are as under:

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
						31-Mar-23
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
Total revenue from operations	20.93	10.74	11.75	31.67	26.52	154
Profit before tax	(91.09)	(95.03)	(124.38)	(186.13)	(253.73)	(504.50)
Profit after tax	(125.94)	(83.44)	(108.80)	(162.88)	(222.58)	(440.38)

3. The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on November 7, 2023.

For MPS Infotecnics Limited

Peeyush Kumar Aggarwa Place: New Delhi Chairman Date: 07/11/2023 DIN:00090423

मांग सूचना

जबकि एमेंट रिकंस्टक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद "आर्सिन" के रूप में संदर्भित) एक एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी है जं कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यह इसमें इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 2 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है); और जबकि नीचे दिए गए चार के स्तंभ नंबर 2 में वर्णितानुसार उधारकर्ता/बंधककर्ताओं/गारंटरों/सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड से ऋण प्राप्त किया है तथा जबकि आर्सिल (''आर्सिल-एसबीपीएस-आई-ट्रस्ट'' के एकमात्र ट्रस्टी के रूप में) ने नीचे दिए गए चार्ट के स्तंभ नंबर 1 में उल्लिखि ऋण खाता / तों से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है; और जबकि आर्सिल ने अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभृत ऋणदाता के रू में, तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत मांग सचनायें निर्गत की थी, जिनमें स्तंभ सं. २ मतें वर्णितानुसार उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं / सह—दायित्वधारक एवं सहमतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत भावी ब्याज का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विभिन्न कारणों से सूचनायें प्राप्त ही नहीं हो सकी हैं।

 আएलपी हैबिटेशन प्राइवेट लिमिटेड (उचारकता)/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी/श्री अनिल कुमार इ. 37,118,794/-	क्र.	उधारकर्ता का नाम/सह—उधारकर्ता का नाम /	बकाया	13(2) सूचना
परनामी/श्री रमन कुमार परनामी 19-10-2023	सं.	विक्रेताकर्ता बैंक का नाम/ऋण खाता सं.	देयराशि	की तिथि
				19-10-2023

प्रतिभूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519ए/11 के में स्थित एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा — 122001 में स्थित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो **श्री रमन कुमार परनामी** के खामित्वधारण में है तथा **निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर—** निजी सड़क, **दक्षिण—** मकान, **पूर्व—** आर. पी. चतुर्वेदी का मकान, **पश्चिम**— विजय आहूजा का घर।

वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी/श्री पुनीत धमीजा /	30-09-2023	19-10-2023
श्री अनिल भगत /श्री रमन कुमार परनामी	के अनुसार	

प्रतिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50-51 में रिथत तथा उपरिथ सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.7 ार्ग मीटर है, जो **मैसर्से वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्क्घारण में है (उपर्युक्त संपंति मैसर्स परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेर** द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)

3.	परनामी गुड्स केरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी /श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री पुनीत धमीजा / श्री अनिल भगत / श्री रमन कुमार परनामी		19-10-2023
	प्रतिभूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प	लॉट नंबर 50–51 में स्थि	ात तथा उपस्थित
	हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुड़गांव ह	हरियाणा में स्थित है, जि	सकी माप २७२.७५

र्ग मीटर है, जो **मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वार** प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)।

अतः, स्तंभ संख्या २ में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उर इस सुचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं /सह-उधारकर्ताओं /गारंटरों, सह-दायित्वधारकों ए सहमतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिर्ग के अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज एवं अन्य राशियों के सा कुल राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुस संपत्तियों पर प्रतिभृति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्ग निर्धारितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं।

हस्ता. / — प्राधिकत अधिकार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड दिनांक : 09—11—2023

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड **पंजीकृत कार्यालय :** दि रूबी, 10वाँ तल, 29 सेनाप सीआईएन — U65999MH2002PLC134884 शाखा पता : 1008, वेस्टेंड मॉल, जनकपुरी पश्चिम, नई दिल्ली —

ESCORTS KUBOTA LIMITED

Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, Haryana 121 003. Notice is hereby given that the certificate (s) for the undermentioned

securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder(s) of the said securities/applicant (s) has/have applied to the Company to issue duplicate certificate (s).

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate (s) without further intimation.

Name of the Company: ESCORTS KUBOTA LIMITED

	Name of the security holders	Kind of securities and face value	Folio No.	Distinctive Numbers	No. of securities
	HEENA KRIPALANI	Equity	ESC0114258	22824659-22824758	100 Nos.
	ARJUN KRIPALANI	IPALANI (F.V. Rs.10/-)	29074659-29074758	100 Nos.	
	Place : Chennai			HEENA ARJUN K	RIPALANI
ı	Date: 09 11 2023			ARIIIN K	ΡΙΡΔΙ ΔΝΙ



Online e-tenders are invited from Original manufacturers/ Authorized dealer (as per details given in tender documents) for Supply of 50 & 20 Ton Capacity Electronic Pit-type, load cell type weighbridges to Mohiuddinpur unit (District-Meerut) of U.P. State Sugar Corporation Ltd., The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions etc., can be downloaded from etender portal h**ttp://etender.up.nic.in** & Sugar Corporation's website www.upsugcorp.in from 09.11.2023.

The Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to and decision of Corporation will be final & binding. MANAGING DIRECTOR

यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 3–ए, प्रथम तल, ब्लॉक-एक्स, लोहा मण्डी, मारायणा इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली–110028 कॉर्मोरेट कार्यालय : तीसरा तल, प्लॉट सं, बी–103, दक्षिण सिटी–1, गुरूग्राम, हरियाणा–122001 CIN: L51909DL1981PLC012621, ईमेल आईडी: info@euroasiaexportsltd.com, फोन सं. 0124–4577733 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

			(रु. लाखा म)
विवरण	30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही	30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही	30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
परिचालनों से कुल आय (निवल)	5.21	11.91	5.80
अवधि हेतु निवल (हानि) कर पूर्व और असाधारण मदों	0.79	1.82	0.05
अवधि हेतु निवल (हानि) कर पूर्व	0.79	1.82	0.05
अवधि हेतु निवल (हानि) कर पश्चात	0.57	1.33	0.05
अवधि हेतु कुल समेकित आय	0.57	1.33	0.05
इक्विटी शेयर पूंजी	156.88	156.88	156.88
प्रति शेयर आय			
मूल	0.04	0.09	-
तनुकृत	0.04	0.09	-
नेट : जाजेक सेही (सनीक्रमा एवं अन्य एकरीक्रमा	. भागभगकता	ਜਂ\ ਕਿਵਿਆਦ=	००१६ के

नोट : उपरोक्त, सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर और साथ ही कंपनी की वेबसाइट www.euroasiaexportsltd com उपलब्ध है। प्रति और निदेशक मंडल की ओर र

हस्ता/-हस्ता/-राकेश कुमार सिंगल मुकुंद मुरारी दिनांक : 08.11.2023 स्थान : नई दिल्ली प्रबंध निदेशक बीआईएन : 06595136 बीआईएन : 08606277

DHAMPUR

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड पंजी. कार्यालयः धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर (यु.पी.) 246761,

फोन: 011-41259400 ईमेल आईडी: investordesk@dhar वेबसाइटः www.dhampursugar.com, CIN: L15249UP1933PLC000511 डाक मतपत्र सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (कंपनी) निम्नलिखित मदों पर रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त

x₽.₹1	सकल्प का सादान्त ।ववरण	भक्त का अकार	
1	कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री सुभाष पांडे की नियुक्ति	विशेष	
2	कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव	विशेष	
अन्य बातों के साथ–साथ व्याख्यात्मक विवरण और रिमोट ई–वोटिंग के लिए निर्देश से शामिल			

क मतपत्र संचना कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com. स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉव एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्योरिटीज . डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ह और दसे दालनलोद किया जा सकता है।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में डाक मतपत्र सूवना का इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैस 08 नवम्बर, 2023 को ई—मेल के माध्यम से केवल उन सदस्यों को किया गया है जिनके नाम 03 नवम्बर, 2023 ''कट—ऑफ तिथि'') को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") से प्राप्त सदस्यों के रिजस्टर/ लामार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं और जिनके ई—मेल पते कंपनी के पास उपलब्ध हैं। तद्नुसार, डाक मतपत्र फॉर्म और पूर्व-भुग्तेय व्यवसाय उत्तर लिफाफे के साथ डाक मतपत्र सूचना की भौतिक प्रति इस डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को नहीं मेजी जा रही है। डाक मतपत्र सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 08 नवंबर, 2023 को पूरा हो गया है।

कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली है। रिमोट ई—वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया सूचना के 'नोट्स' सेक्शन के भाग के रूप में दी गई है।

रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट देने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि व मचना में दिये गये निर्देशों को भूजी-भांति पद जें और रिमोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट डालने के लिए सूचना के 'नोट्स' सेक्शन में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी सहमति (एफओआर) या असहमति (खिलाफ) दर्ज करें।

ई-वोटिंग की शुरूआत सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स) मंगलवार, 14 नवंबर, 2023 **ई-वोटिंग की समाप्ति** सायं 5:00 बजे (भा.मा.स) बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023

इस अवधि के दौरान कट—ऑफ तिथि अर्थात् (03 नवम्बर, 2023) को या तो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट . रे सकते हैं। वोटिंग अधिकार की गणना कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाएगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद सदस्य को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सूविधा पर सेबी परिपत्र दिनांक 09 दिसम्बर

2020 के अनुसार ई—वोटिंग प्रक्रिया सभी व्यक्तिगत डीमेट खाता धारकों के लिए वोटिंग प्रक्रिया की दक्षता बढाने के लिए डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के उनके डीमेट खातों / वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से सक्षम की गई है। सदस्यों को मलाह दी जाती है कि वे ई—वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डीपी के पास अपना मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल आईँडी को अपडेट कराएं। रिमोट ई—वोटिंग की लॉगिन प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश डाक मतपत्र सूचना में दिये गये है।

निदेशक मंडल ने रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री साकेत शर्मा, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ4229), पार्टनर मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएटस. कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

वोट की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के पास अपनी रिपोर्ट जमा करेगा । संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ डाक मतपत्र (रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से) के माध्यम से आयोजित वोटिंग का परिणाम 15 दिसम्बर, 2023 को या उससे पूर्व अध्यक्ष या एंसे किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित किया जाएगा। इसे कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जाएंगा और इसकी सूचना बीएसई लिमिटेड (''बीएसई'') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई"), जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को दी जाएगी और यह उनकी संबंधित वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com प भी उपलब्ध होगा। प्रस्ताव, यदि अनमोदित किया जाता है तो इसे रिमोट ई-वोटिंग की अंतिम तिथि अर्थात् 13 दिसम्बर, 2023 को प्रभावी रूप से पारित माना जाएगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत कराने के लिए सदस्यों हेतु आवश्यक व्यवस्था की है। जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे पंजीकृत कराएं:

यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में घारित हैं तो इसे अपने डीमेट खाते का रखरखाव करने वाले अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत कराएं ।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत / अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा गया एवं हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 (कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com पर उपलब्ध) को अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, यूनिट घामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, ई-मेलः rta@alankit.com के पास जमा करके इसके पंजीकृत/अपडेट कराएं।

किसी भी पछताछ के लिए. आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध शेयरधारको के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग यजर मैनअल देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर कॉल कर सकते है या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

कृते घामपुर शुगर मिल्स लिमिटेर अपर्णा गोयल कंपनी सचिव सदस्यता सं. 22787

स्थान : नई दिल्ली